

**—136****329(JF)****2025****अर्थशास्त्र**

समय : तीन घण्टे 15 मिनट

पूर्णांक : 100

नोट : प्रारम्भ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न-पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं।

Note : First 15 minutes are allotted for the candidates to read the question paper.

निर्देश :

- (i) सभी प्रश्न अनिवार्य हैं।
- (ii) प्रश्न संख्या 1 से 10 तक बहुविकल्पीय प्रश्न हैं, जिनका केवल सही उत्तर अपनी उत्तर-पुस्तिका में लिखना है। प्रश्न संख्या 11 से 18 तक अति लघु-उत्तरीय प्रश्न हैं, जिनका प्रत्येक का उत्तर लगभग 50 शब्दों में, प्रश्न संख्या 19 से 24 तक लघु-उत्तरीय प्रश्न हैं, जिनका प्रत्येक का उत्तर लगभग 150 शब्दों में तथा प्रश्न संख्या 25 से 27 तक विस्तृत-उत्तरीय प्रश्न हैं, जिनका प्रत्येक का उत्तर लगभग 300 शब्दों में दीजिए।
- (iii) प्रत्येक प्रश्न के लिए निर्धारित अंक उसके सामने दिए गए हैं।

**Instructions :**

- (i) All questions are compulsory.
- (ii) Question Numbers 1 to 10 are Multiple Choice Type, for which only correct answer should be written in the answer-book. Question Numbers 11 to 18 are Very Short-Answer Type, which are to be answered in about 50 words each, Question Numbers 19 to 24 are Short-Answer Type, which are to be answered in about 150 words each and Question Numbers 25 to 27 are Long-Answer Type, which are to be answered in about 300 words each.
- (iii) Allotted marks of all the questions are given against each of them.



निम्नलिखित प्रश्नों के केवल सही उत्तर अपनी उत्तर-पुस्तिका में लिखिए :

1. निम्नलिखित में से कौन सत्य है ? जब सीमान्त उपयोगिता ऋणात्मक हो जाती है तब, 1
- (A) कुल उपयोगिता ऋणात्मक हो जाती है ।
- (B) कुल उपयोगिता घटती है ।
- (C) कुल उपयोगिता शून्य हो जाती है ।
- (D) कुल उपयोगिता बढ़ती है, परन्तु धीमी गति से ।
2. निम्नलिखित में से कौन सत्य है ? कुल परिवर्तनशील लागत बराबर होती है : 1
- (A) औसत परिवर्तनशील लागत  $\times$  मात्रा  $AVC$
- (B) औसत परिवर्तनशील लागत / मात्रा  $AVC \times Q = T$
- (C) सीमान्त परिवर्तनशील लागत  $\times$  मात्रा
- (D) सीमान्त परिवर्तनशील लागत/मात्रा
3. एक मिश्रित अर्थव्यवस्था में उत्पादन और उपभोग सम्बन्धी निर्णय लिए जाते हैं : 1
- (A) मात्र केन्द्रीय सरकार द्वारा
- (B) मात्र राज्य सरकारों द्वारा
- (C) केन्द्र एवं राज्य सरकारों, दोनों द्वारा
- (D) सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्रों द्वारा

4. 'यदि अन्य बातें स्थिर रहें तो, मुद्रा पूर्ति में वृद्धि मूल्य स्तर में वृद्धि कर देगी।' उपरोक्त कथन सम्बन्धित है : 1

- (A) आदर्शक अर्थशास्त्र से
- (B) धनात्मक अर्थशास्त्र से
- (C) व्यष्टि अर्थशास्त्र से
- (D) उपरोक्त सभी से

5. निम्नलिखित में से कौन सत्य है ? पूर्ण-प्रतियोगी बाजार में होती है : 1

- (A) औसत आगम (AR) = सीमान्त आगम (MR)
- (B) औसत आगम (AR) > सीमान्त आगम (MR)
- (C) औसत आगम (AR) < सीमान्त आगम (MR)
- (D) औसत आगम (AR) = कुल आगम (TR)

6. निम्नलिखित में से कौन सत्य है ? निवल निवेश बराबर होता है : 1

- (A) सकल निवेश – लागत के
- (B) सकल निवेश – मूल्यहास के
- (C) सकल निवेश – सीमान्त निवेश के
- (D) सकल निवेश – शुद्ध लाभ के

7. निम्नलिखित में से कौन असत्य है ? भारत की स्वतन्त्रता के समय (1947) एक भारतीय रुपया बराबर होता

1

था :

(A) चार चवन्नी

(B) दो अठन्नी

(C) चौसठ पैसे

(D) सौ पैसे

8. एक बन्द अर्थव्यवस्था के लिए, निम्नलिखित में से कौन 'राष्ट्रीय आय का तादात्म्य' प्रस्तुत करता है ?

1

(A)  $Y = C + I + G$

(B)  $Y = C + I + G + X$

(C)  $Y = C + I + G + (X - M)$

(D)  $Y = C + I + G + NX$

9. निम्नलिखित में से कौन भुगतान सन्तुलन के पूँजी खाते का अवयव नहीं है ?

1

(A) विदेशी ऋण

(B) विदेशी निवेश

(C) विदेशी प्रेषण

(D) विदेशी सहायता

10. यदि किसी देश की राष्ट्रीय आय (Y) ₹ 100 करोड़ से बढ़ती है और राष्ट्रीय उपभोग (C) ₹ 80 करोड़ से बढ़ता है, तो बचत की सीमान्त प्रवृत्ति होगी :

1

- (A) 0.2
- (B) 0.8
- (C) 2.0
- (D) 8.0

**(Multiple Choice Type Questions)**

Write the only correct answer of the following questions in your answer-books :

1. Which one of the following is true ? When the marginal utility becomes negative :

1

- (A) the total utility becomes negative.
- (B) the total utility decreases.
- (C) the total utility becomes zero.
- (D) the total utility will increase but at slower rate.

2. Which one of the following is true ? The total variable cost is equal to :

1

- (A) The average variable cost  $\times$  quantity
- (B) The average variable cost / quantity
- (C) The marginal variable cost  $\times$  quantity
- (D) The marginal variable cost / quantity

3. In a mixed economy decisions related to production and consumption are taken by : 1
- (A) The Central government only
  - (B) The State governments only
  - (C) The Central and State governments, both
  - (D) The Public Sector and Private Sector
4. The statement 'Other things being constant, an increase in money supply will increase the price level.', is related to 1
- (A) Normative economics
  - (B) Positive economics
  - (C) Micro economics
  - (D) All of the above
5. Which one of the following is true ? In perfectly competitive market, the : 1
- (A) Average Revenue (AR) = Marginal Revenue (MR)
  - (B) Average Revenue (AR) > Marginal Revenue (MR)
  - (C) Average Revenue (AR) < Marginal Revenue (MR)
  - (D) Average Revenue (AR) = Total Revenue (TR)

6. Which one of the following is true? Net investment is equal to

1

- (A) Gross Investment – Cost
- (B) Gross Investment – Depreciation
- (C) Gross Investment – Marginal Investment
- (D) Gross investment – Net Profit

7. Which one of the following is false? At the time of Independence (1947), one Indian rupee was equal to :

1

- (A) 4 Four Annas
- (B) 2 Eight Annas
- (C) 64 Paise
- (D) 100 Paise

8. Which one of the following expresses 'National Income Identity' for a closed economy? 1

- (A)  $Y = C + I + G$
- (B)  $Y = C + I + G + X$
- (C)  $Y = C + I + G + (X - M)$
- (D)  $Y = C + I + G + NX$

9. Which one of the following is not a component of capital account in balance of payments ? 1

- (A) Foreign debt
- (B) Foreign investment
- (C) Foreign remittances
- (D) Foreign aid

10. If the National Income (Y) of a country increases by ₹ 100 crores and the National Consumption (C) increases by ₹ 80 crores, then the Marginal Propensity to Save will be equal to : 1

- (A) 0.2
- (B) 0.8
- (C) 2.0
- (D) 8.0

(अति लघु-उत्तरीय प्रश्न)

(Very Short-Answer Type Questions)

11. 'उच्चतर तटस्थता वक्र, उच्च स्तरीय सन्तुष्टि को प्रदर्शित करता है।' व्याख्या कीजिए। 3

11. 'Higher indifference curve represents higher level of satisfaction.' Explain. 3

12. सामान्य वस्तु एवं निम्न स्तरीय वस्तु में भेद कीजिए। 3

12. Differentiate between Normal goods and Inferior goods. 3

13. उत्पादन के विभिन्न साधन और उनको दिए जाने वाले पारितोषिक क्या हैं ?

3

13. What are different means of production and the rewards given to them ?

3

14. उन तीन कारकों का वर्णन कीजिए जो किसी फर्म के पूर्ति वक्र को प्रभावित करते हैं ।

3

14. Describe three factors that affect the supply curve of a firm.

3

15. बाज़ार मूल्य पर जी.डी.पी. और जी.वी.ए. में क्या सम्बन्ध है ?

3

15. What is the relation between G.D.P. at market price and G.V.A. ?

3

16. 'प्रभावी माँग' बिन्दु किसे कहते हैं ?

3

16. What is called point of 'effective demand' ?

3

17. सरकारी बजट के 'राजस्व व्यय' और 'पूँजी व्यय' में भेद कीजिए ।

3

17. Differentiate between 'Revenue Expenditure' and 'Capital Expenditure' of government budget.

3

18. विदेशी विनिमय की पूर्ति को प्रभावित करने वाले विभिन्न तत्त्व क्या हैं ?

3

18. What are the different factors that affect the supply of foreign exchange ?

3

## (Short-Answer Type Questions)

19. तटस्थता वक्र में, प्रतिस्थापन की हासमान सीमान्त दर के नियम की चित्र सहित व्याख्या कीजिए। 6
19. Explain the law of diminishing marginal rate of substitution in indifference curves, with the help of diagram. 6
20. औसत आगम (AR), सीमान्त आगम (MR) तथा कुल आगम (TR) की व्याख्या कीजिए। 6
20. Explain the Average Revenue (AR), Marginal Revenue (MR) and Total Revenue (TR). 6
21. वस्तु-विनिमय प्रणाली की चार बुराइयों का वर्णन कीजिए। 6
21. Describe four demerits of barter system. 6
22. स्वायत्त विनियोग क्या है और अर्थव्यवस्था में इसकी क्या भूमिका है ? 6
22. What is autonomous investment and what is its role in the economy ?  
<https://www.upboardonline.com> 6
23. भारत में वस्तु एवं सेवा कर (जी.एस.टी.) पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। 6
23. Write short note on 'Goods and Services Tax' in India. 6
24. भुगतान सन्तुलन के चालू खाते के विभिन्न अवयवों का वर्णन कीजिए। 6
24. Describe the different components of current account in balance of payments. 6

(Long-Answer Type Questions)

25. उपभोक्ता के सन्तुलन के विश्लेषण में प्रयुक्त 'सम-सीमान्त उपयोगिता नियम' की व्याख्या कीजिए। 10

अथवा

माँग से आप क्या समझते हैं ? माँग के निर्धारक-तत्त्वों का वर्णन कीजिए। 10

25. Explain the 'Law of Equi-Marginal Utility' in the analysis of consumer's equilibrium. 10

OR

What do you understand by Demand ? Describe the determinants of Demand. 10

26. 'पैमाने के प्रतिफल' के नियमों की सचित्र व्याख्या कीजिए। 10

अथवा

भारत में, राष्ट्रीय आय की विभिन्न अवधारणाओं का वर्णन कीजिए। 10

26. Explain the 'Laws of Return to Scale' with diagram. 10

OR

Describe different concepts of National Income, in India. 10

27. 'पूर्ण प्रतियोगी बाजार' की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। इस प्रकार के बाजार में मूल्य निर्धारण की व्याख्या कीजिए। 10

अथवा

माँग और पूर्ति वक्र के ऊपर की ओर खिसकने का, संतुलन कीमत और मात्रा पर प्रभाव की विवेचना कीजिए। 10

27. Describe the characteristics of 'Perfectly Competitive Market'. Explain the determination of price in such market. 10

OR

Discuss the effect of upward shifting of Demand and Supply curve on equilibrium price and quantity. 10

---

